



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1938 (श0)

(सं0 पटना 662) पटना, वृहस्पतिवार, 11 अगस्त 2016

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

4 अगस्त 2016

सं0 वि.प.वि.-17/2015 -39(एस.)वि.प.—बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम - 273(4) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में किए गए निम्नलिखित संशोधन सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :

#### संशोधन

1. नियमावली के नियम 24 (1) की द्वितीय पंक्ति में शब्दों 'सभापति सहित' के पश्चात् अंक '5' के स्थान पर अंक '7' प्रतिस्थापित हो,
2. नियमावली के नियम-26 में शब्द 'गणपूर्ति' के पश्चात् अंक '2' के स्थान पर अंक '3' प्रतिस्थापित हो,
3. नियमावली के नियम 32 (1) की द्वितीय पंक्ति में अंक '9' के स्थान पर अंक '5' प्रतिस्थापित हो,
4. नियमावली के नियम 176 (1) की तृतीय पंक्ति में अंक '11' के स्थान पर अंक '7' प्रतिस्थापित हो,
5. नियमावली के नियम 238 (1) की द्वितीय पंक्ति में अंक '9' के स्थान पर अंक '7' प्रतिस्थापित हो,
6. नियमावली के नियम 240 में अंक '4' के स्थान पर अंक '3' प्रतिस्थापित हो,
7. नियमावली के नियम 253 की प्रथम पंक्ति में अंक '9' के स्थान पर अंक '7' प्रतिस्थापित हो,
8. नियमावली के नियम 259 में अंक '4' के स्थान पर अंक '3' प्रतिस्थापित हो,
9. नियमावली के नियम 271 (1) की तृतीय पंक्ति में अंक '11' के स्थान पर अंक '9' प्रतिस्थापित हो,
10. नियमावली के नियम 272 में अंक '4' के स्थान पर अंक '3' प्रतिस्थापित हो,

11. नियमावली के नियम 276 (1) की द्वितीय पंक्ति में अंक '11' के स्थान पर अंक '7' प्रतिस्थापित हो,
12. नियमावली के नियम 279 (1) की द्वितीय पंक्ति में अंक '11' के स्थान पर अंक '5' प्रतिस्थापित हो,
13. नियमावली के नियम 285 (2) की प्रथम पंक्ति में अंक '7' के स्थान पर अंक '5' प्रतिस्थापित हो,
14. नियमावली के नियम 289 (1) की प्रथम पंक्ति में शब्दों 'कम से कम' के स्थान पर शब्द 'अधिकतम' प्रतिस्थापित हो,
15. नियमावली के नियम 289 (1) की प्रथम पंक्ति में अंक '9' के स्थान पर अंक '7' प्रतिस्थापित हो।
16. नियमावली के अध्याय 37 में शीर्षक 'राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो' तथा नियम 291 सम्पूर्ण रूप से विलोपित हो,
17. नियमावली के नियम 2 की 108वीं पंक्ति में परिभाषा 'ब्यूरो' एवं उसके पश्चात् परिभाषा 'ब्यूरो सचिव' सम्पूर्ण रूप से विलोपित हो,
18. नियमावली का परिशिष्ट-5 विलोपित हो।

**इन संशोधनों के पश्चात् नियमावली के नियम इस प्रकार पठित होंगे :-**

#### **कार्यमंत्रणा समिति**

1. 24. **कार्यमंत्रणा समिति का संघटन** – (1) सभापति, कार्यमंत्रणा समिति के नाम से एक समिति मनोनीत कर सकते हैं, जिसके सभापति सहित 7 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और सभापति ही समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति साधारणतया प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में परिषद् के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में मनोनीत होगी।
2. 26. **गणपूर्ति** – समिति की गणपूर्ति 3 सदस्यों की होगी।

#### **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी समिति**

3. 32. **समिति का संघटन** – (1) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी एक समिति होगी जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं रहेंगे।

#### **याचिका समिति**

4. 176. **याचिका समिति का संघटन** – (1) प्रत्येक वर्ष परिषद् के प्रथम सत्र के आरंभ में या समय-समय पर जैसी स्थिति हो, सभापति याचिकाओं के लिये एक समिति मनोनीत करेंगे जिसके अधिक से अधिक 7 सदस्य होंगे।

#### **विशेषाधिकार समिति**

5. 238. **विशेषाधिकार समिति का गठन** – (1) सभापति किसी कैलेण्डर वर्ष के परिषद् के प्रथम सत्र के आरंभ में 7 सदस्यों की विशेषाधिकार समिति मनोनीत करेंगे।
6. 240. **समिति की गणपूर्ति** – समिति की गणपूर्ति 3 सदस्यों की होगी।

#### **आवास समिति**

7. 253. समिति के अध्यक्ष को लेकर अधिक से अधिक 7 सदस्यों की यह समिति होगी।
8. 259. आवास समिति में बैठकों की गणपूर्ति 3 सदस्यों की होगी।

#### **नियमावली समिति**

9. 271. **नियमावली समिति की रचना** – (1) प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में नियमावली समिति सभापति द्वारा मनोनीत की जायेगी तथा समिति के अध्यक्ष को लेकर 9 सदस्य इसमें रहेंगे। सभापति इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।
10. 272. **गणपूर्ति** – इस समिति की बैठक के लिये 3 सदस्यों की गणपूर्ति होगी।

**सरकारी आश्वासन संबंधी समिति**

11. 276. **समिति का संघटन, पद अवधि इत्यादि** – (1) समिति में अधिक से अधिक 7 सदस्य रहेंगे जो सभापति द्वारा मनोनीत होंगे।

**प्रत्यायुक्त (सबऑर्डिनेट) विधान समिति**

12. 279. **प्रत्यायुक्त विधान समिति का संघटन** – (1) समिति में अधिक से अधिक 5 सदस्य रहेंगे जो सभापति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति**

13. 285. 2. **समिति का गठन** – समिति में अध्यक्ष सहित अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे जो सभापति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

**निवेदन समिति**

14. 289. (1) **समिति का गठन** – समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 7 सदस्य होंगे जो सभापति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

15. उपरोक्त क्रमांक 14 में सन्निहित।

**अध्याय 37**

16. 291. (विलोपित)

17. 2. परिभाषा :- (“ब्यूरो” एवं “ब्यूरो सचिव” – विलोपित)  
परिशिष्ट - 5 (विलोपित)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

**सुनील कुमार पंवार,**

सचिव, बिहार विधान परिषद्।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 662-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>